



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 1984/चैत्र 30, 1906

No. 122]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 1984/CHAITRA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate pagling is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1984

सांका०नि० 296(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 30) की धारा 5 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल उपकर, नियम, 1984, है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक संदर्भ में अस्थिरा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 अभिप्रेत है ;

(ख) 'उपकर' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उदगृहीत और संगृहीत उपकर अभिप्रेत है ;

(ग) "कलक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अपर कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उप कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक भी हैं ;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "मिल" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें या जिसके किसी भाग में वनस्पति तेल का शक्ति की सहायता से उत्पादन किया जाता है या मामूली स्तर पर उत्पादन किया जाता है ;

स्पष्टीकरण :— "शक्ति" से विद्युत ऊर्जा या किसी अन्य रूप की ऊर्जा अभिप्रेत है, जो मशीन द्वारा पारेषित की जाती है और जिसका उत्पादन मानव या किसी जीवजन्तु द्वारा नहीं किया जाता है ;

(ब) किंगी मिल के सम्बन्ध में 'अधिभागी' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो मिला के कार्यकलाप पर अग्रिम नियंत्रण रखता है, या मिल का स्वामी, उस दशा में जिसमें वह अधिभागी नहीं है।

(छ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

3. अधिभागी द्वारा कुछ विनिर्दिष्टों का प्रदाय किया जाना — किसी मिल का प्रत्येक अधिभागी

(क) यदि मिल को इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित किया गया था तो ऐसे प्रारम्भ के 14 दिन के भीतर, और

(ख) यदि मिल का इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् स्थापित किया गया है तो ऐसे स्थापन के 14 दिन के भीतर, निम्नलिखित विनिर्दिष्टों में युक्त एक विवरणी कलक्टर को देगा, अर्थात् —

(i) मिल का नाम और अस्थान,

(ii) अधिभागी का नाम और पता,

(iii) वह पता जिस पर मिल के सम्बन्ध में पत्रादि भेजे जाएँ, और

(iv) मिल की कुल क्षमता।

4. विवरणियाँ का परिधान — (1) किसी मिल का प्रत्येक अधिभागी कलक्टर को प्रत्येक साल ऐसी जानकारी सहित जा अगले साल के सानवे दिन के अगले पहले विहित हो जाए, प्रत्येक साल एक विवरणी देगा।

(2) किसी मिल का प्रत्येक अधिभागी कलक्टर को 31 मार्च का समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसी अन्य जानकारी सहित जा ऐसे वर्ष के समाप्त होने के तीसरे दिन के भीतर विहित की जाए, प्रत्येक साल में विवरणी देगा।

प्रत्येक

(नियम 4 देखिए)

(मासिक विवरणी)

मास 19 _____ त मिला बनस्पति दोनों पर उपर की भारत बनस्पति तथा उपर अधिनियम, 1983 की धारा 5 के अधीन विवरणी।

1. मिल का नाम

2. क्या मिल कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। यदि हो, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या

3. अधिभागी का नाम और पता

4. मिल का पता

5. मास के लिए भदेय उपकरण की संख्या

6. विनायक निष्कर्षण एककों से निम्न कुल पेटाई क्षमता

प्रयुक्त विनायक निष्कर्षण का प्रकार	प्रत्येक प्रकार के निष्काषकों की संख्या	तिलहन के रूप में कुल पेटाई क्षमता (24 घंटे का प्रति दिन) (किबटल में)	मास के दौरान काम पर लगाए गए प्रत्येक प्रकार के निष्काषकों की संख्या
1	2	3	4

मास के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या

एक	वा	तीस
5	6	7

मास के दौरान काम किए गए घंटों की कुल संख्या

एक	वा	तीस
5	6	7

7. विनायक निष्कर्षण एककों की कुल क्षमता

प्रयुक्त विनायक निष्कर्षण मशीनों का प्रकार	प्रत्येक प्रकार की विनायक निष्कर्षण मशीनों की संख्या	कुल विनायक निष्कर्षण क्षमता (24 घंटे का प्रति दिन) (किबटल में)	मास के दौरान काम पर लगाई गई प्रत्येक प्रकार के विनायक निष्कर्षण मशीनों की संख्या	मास के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या पंक्तियाँ	मास के दौरान काम किए गए घंटों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
7	8				

8 मास व दौरान पेरे गए निलहने, उत्पादित तथा और खलिया का वास्तविक मात्रा

मास व दौरान पेरे गए बीज का नाम पेरे गए निलहने की मात्रा (क्विंटल में) उत्पादित तथा की मात्रा (क्विंटल में) उत्पादित तथा की मात्रा (क्विंटल में)

1 2 3 4

9 मास व दौरान निकाले गए खली विलायक उत्पादित तथा और विनायक निकाले गए के की वास्तविक मात्रा

मास व दौरान निकाले गए खली विलायक का नाम निकाले गए खली विनायक की मात्रा (क्विंटल में) उत्पादित विनायक निकाले गए तथा की मात्रा (क्विंटल में) उत्पादित विलायक निकाले गए के की मात्रा (क्विंटल में)

1 2 3 4

10 मास 19 के अंत में मिल में स्टॉक ।

निलहन का नाम बीज (क्विंटल में) तेल (क्विंटल में) बीज (क्विंटल में)

1 2 3 4

11 मास 19 के अंत में मिल में स्टॉक

खली का नाम खली (क्विंटल में) विनायक निकाला गया तेल (क्विंटल में) विनायक निकाला गया बीज (क्विंटल में)

1 2 3 4

12 सबत उपकर

रु० प०

13 घोषणा संख्याक और तारीख तथा प्रेषण-खजाने का नाम ।

घोषणा

मैं इसका द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त विधिप्रणाली का मिनट व अभिलेखा और बर्तिया से मिलाता कर लिया है और वे, जहाँ तक मैं अभिलेखित कर सकता हूँ शुद्ध और पूरा हैं । मैं इसका द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने विवरणों में भी दी गई योग्य पूर्ववर्ती मासों के लिए निर्धारित उपकर की रकम मदद कर दी है ।

तारीख

हस्ताक्षर

(अधिशोभी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)

टिप्पण — इस विवरणी के प्रयोजन के लिए भाड़े के आधार पर पेरे गए निलहने निकाले गए खली विलायक की मात्रा को भी दिखाया जा दिया जाता चाहिए ।

प्रमाण ख

(नियम 1 देखिए)

प्रत्येक मिन की बाबत वार्षिक विवरण

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रोज

वर्ष 19— के लिए वार्षिक विवरणी

(अप्रैल से मार्च तक)

1 मिल के स्थापन की तारीख रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि वह कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो सके तो मिल का नाम

2 मिल की वार्षिक संस्थापित क्षमता (निलहन, खनी के रूप में) (24 घंटे या प्रति दिन) ।

3. मिल का पता
स्थान (वास्तविक अवस्थान सहित)
डाक घर:
तालुक:
जिला और राज्य:
4. अधिभोगी/स्वामी (जो भी मिल चलाता हो) का
नाम: और अधिभोग की तारीख:
5. वर्ष के दौरान पेराई ब्यौरे:

बीज का नाम	पेरे गए बीजों की मात्रा (क्विंटल)	उत्पादित तेल की मात्रा (क्विंटल)	उत्पादित खली की मात्रा (क्विंटल)	वर्ष (वर्षों) के दौरान संवत् उपकर की रकम
1	2	3	4	5

1. मूंगफली (गिरी)
 2. रेप-सीड-राई
 3. तिल
 4. अलसी
 5. रेन्डी
 6. जाफरान
 7. रामतिल
 8. अन्य तिलहन
- (प्रत्येक किस्म विनिर्दिष्ट करें)।

6. वर्ष के दौरान विलायक निष्कर्षण ब्यौरे:

खली का नाम	निकाली गई खली की मात्रा (क्विंटल)	उत्पादित विलायक तेल की मात्रा (क्विंटल)	विलायक निकाले गए केक की मात्रा (क्विंटल)	वर्ष के दौरान संवत् उपकर की रकम
1	2	3	4	5

1. मूंगफली
 2. रेपसीड-राई
 3. तिल
 4. अलसी
 5. रेन्डी
 6. जाफरान
 7. रामतिल
 8. अन्य तिलहन
- (प्रत्येक किस्म विनिर्दिष्ट करें)

7. वर्ष के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या

	विलायक निष्कर्षण एकको से भिन्न मिलें	विलायक निष्कर्षण मिलें।
पारी	(दिन)	(दिन)
(1)	(2)	(3)
एक पारी		
दो पारियाँ		
तीन पारियाँ		

स्थान:

तारीख:

अधिभोगी के हस्ताक्षर
[फा० सं० 1-7/83-सी ए VI]
के० सी० एस० आचार्य, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1984.

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 and section 6 of the Vegetable oils Cess Act, 1983 (30 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Vegetable oils Cess Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Vegetable oils Cess Act, 1983;

(b) "Cess" means the cess levied and collected under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Collector" means the Collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise, Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;

(d) "Form" means a form annexed to these rules;

(e) "mill" means any premises in which or in any part of which, vegetable oil is produced, or is ordinarily produced, with the aid of power;

Explanation.—"Power" means electrical energy or any other form of energy, which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency;

(f) "occupier", in relation to any mill, means the person who has the ultimate control over the affairs of the mill, or the owner of the mill in case he is not the occupier;

(g) "section" means a section of the Act.

3. Occupier to supply certain particulars.—Every occupier of a mill shall,—

(a) if the mill was established before the commencement of these rules, within 14 days of such commencement, and

(b) if the mill is established after the commencement of these rules, within 14 days of such establishment, furnish to the Collector a statement containing the following particulars, namely :—

(i) The name and location of the mill;

(ii) the name and address of the occupier;

(iii) the address to which the communication relating to the mill may be sent; and

(iv) the total capacity of the mill.

4. Delivery of returns.—(1) Every occupier of a mill shall furnish to the Collector for each month a return in Form A together with such information as may be prescribed before the end of seventh day of the following month.

(2) Every occupier of a mill shall furnish to the Collector for every year ending on the 31st day of March return in Form B together with such other information as may be prescribed within thirty days of the close of such year.

FORM-A

(See rule 4)

(Monthly Return)

Return under section 5 of Vegetable Oils Cess Act, 1983 for the month of.....19.....in respect of cess on vegetable oils.

1. Name of the mill :

2. Whether the mill is registered under the Factories Act, 1948.

If so, the registration number :

3. Name and address of occupier :

4. Address of the mill :

5. Amount of cess payable for the month :

Number of days worked during the month shifts.			Total number of hours worked during the month.
One	Two	Three	
5	6	7	8

Type of solvent extraction machinery used.	No. of solvent extraction machines in each type	Total Solvent extracted in capacity in terms of oilcakes (per day of 24 hours (in quintals)	No. of solvent extraction machines of each type worked during the month	No. of days worked during the month			Total no. of hours worked during the month.	
				Shifts				
				One	Two	Three		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Name of the seed crushed during the month	Quantity of oilseeds crushed (in quintals)	Quantity of oil produced (in quintals)	Quantity of oilcake produced (in quintals.)
1	2	3	4

Name of the oil cake solvent extracted during the month	Quantity of oil cake solvent extracted (in quintals)	Quantity of solvent extracted oil produced (in quintals)	Quantity of solvent extracted cake produced (in quintals)
1	2	3	4

Name of the oilseed	Seed (in quintals)	Oil (in quintals)	Cake (in quintals)
1	2	3	4

11. Stocks in the mill at the end of the month of . . . 19

Name of the Oilcake	Oilcake (in quintals)	Solvent extracted oil (in quintals)	Solvent extracted Oil (in quintals)
1	2	3	4

12. Cess paid

Rs.

Ps.

13. Challan number and date and the name of treasury of remittance.

Declaration

I do hereby declare that I have compared the above particulars with the records and books of the mill and that they are in so far as I can ascertain accurate and complete. I also hereby declare that I have sent the returns and paid the amount of cess assessed for the preceding months.

Dated this day of 19.. . . .

(Signature)

(to be signed by the occupier)

Note:—The quantity of oilseeds crushed/oilcakes solvent extracted on hire basis should also be taken into account for the purpose of this return.

FORM — 8

(See rule 4)

Annual Return in respect of each mill

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE:

CENTRAL EXCISE DIVISION:

CENTRAL EXCISE RANGE:

Annual Return for the year 19_____ (April to March)

1. Name of the mill with the date of establishment, Registration number, if registered under Factories Act.
2. Annual installed capacity of the mill (in terms of oilseeds/oilcakes per day of 24 hours.)
3. Address of the mill place (with actual location)
Post Office,
Taluk :
District and State :
4. Name and address of the occupier/owner/whoever runs the mill) with the date of occupation :

5. Crushing details during the year .

Name of seed	Quantities of seed crushed (quintals)	Quantities of oil produced (quintals)	Quantities of oil cakes produced (quintals)	Amount of cess paid during the year(s)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Groundnut (Kernels)				
2. Rapeseed-Mustardseed				
3. Sesamum				
4. Linseed				
5. Castorseed				
6. Safflower				
7. Niger				
8. Other oil seeds (Specify each variety)				

6. Solvent extraction details during the year

Name of the oilcake	Quantities of oilcakes extracted (quintals)	Quantities of solvent oil produced (quintals)	Quantities of solvent extracted cake (quintals)	Amount of cess paid during the year (₹)
1	2	3	4	5
1. Groundnut				
2. Rapeseed—Mustardseed				
3. Sesamum				
4. Linseed				
5. Castorseed				
6. Safflower				
7. Niger				
8. Other oilcake (specify each variety)				

7. Number of days worked during the year.

	Mills other than solvent Extraction units	Solvent Extraction Mills
Shift (1)	(days) (2)	(Days) (3)
One Shift :		
Two Shifts :		
Three Shifts :		
Place :		
Date :		

Signature of Occupier
[F.No. 1-7/83-CA VI]
K.C.S. Acharya, Addl. Secy.